

PART - B/खण्ड - ब

- (i) Answer any **four** Questions.
किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (ii) Each question carries **10** marks.
प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।
- (iii) Use of Simple Calculator is allowed.
साधारण कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है।
1. Discuss how an investor can protect himself against online frauds.
एक निवेशक ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचा सकता है। चर्चा कीजिए।
 2. What is financial discipline? Discuss the various types of financial products available for an investor.
वित्तीय अनुशासन क्या है? एक निवेशक के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादों पर चर्चा कीजिए।
 3. What is the concept of Insurance? Discuss the various types of insurance schemes an investor can choose for investment purposes.
बीमा की अवधारणा क्या है? निवेश उद्देश्यों के लिए निवेशक द्वारा चुनी जाने वाली विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाओं पर चर्चा कीजिए।
 4. What is Annuity? Explain the concept of Time value of Money with the help of an example.
वार्षिकी क्या है? पैसे के समय मूल्य की अवधारणा को उदाहरण की सहायता से समझाइए।
 5. Write short notes:
टिप्पणी कीजिए:
 - (a) Savings account and current account
बचत खाता और चालू खाता
 - (b) Digital Wallets
डिजिटल वॉलेट

[This question paper contains 4 printed pages]

Your Roll No. :

Sl. No. of Q. Paper : **12043A I**

Unique Paper Code : **6967000008**

Name of the Paper : **Financial Literacy**

Name of the Course : **Value Addition Course (VAC)**

Semester : **1/3**

Time : 2:30 Hours **Maximum Marks : 70**
(Part-A : 30, Part-B : 40)

Instructions for Candidates :**परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :**

- (a) Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
यह प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही सबसे ऊपर अपना रोल नंबर लिखिए।
- (b) Answer may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.
इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।
- (c) First question is compulsory and attempt any two questions from remaining.
पहला प्रश्न अनिवार्य है और शेष में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए।
- (d) Each question carries 10 marks.
प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

12043A

(e) Use of Simple Calculator is allowed.

साधारण कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है।

PART - A/खण्ड - अ

1. Write short notes on any **two** of the following: $5 \times 2 = 10$
निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर टिप्पणी कीजिए:

(a) Systematic Investment Plan (SIP)

व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी)

(b) Ponzi Schemes

पोंजी योजनाएँ

(c) Permanent Account Number

स्थायी खाता संख्या

2. What is a medical insurance policy. Discuss the need and importance of buying a health insurance policy.

मेडिकल बीमा पॉलिसी क्या है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आवश्यकता और उसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

3. What do you understand by spending management? Discuss the steps to be followed in spending management.

व्यय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? व्यय प्रबंधन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।

4. Mr. Shagun, aged 60 years, who is a resident in India, submits the following information pertaining to his income for the financial year 2024-25.

श्री शगुन, उम्र 60 वर्ष, जो भारत के निवासी हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी आय से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

Gross Total Income ₹15,95,000

सकल कुल आय

Life insurance premium ₹40,000

paid for policy taken on

his own life and spouse

12043A

अपने जीवन और जीवन साथी
के जीवन पर ली गई पॉलिसी
के लिए जीवन बीमा प्रीमियम का
भुगतान किया गया

Medical Insurance Policy

₹ 40,000

premium paid for

dependent parents:

आश्रित माता-पिता के लिए

चिकित्सा बीमा पॉलिसी प्रीमियम

का भुगतान

Interest on Savings account ₹20,000

in State Bank of India:

भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते

पर ब्याज

Investment in Term deposit

₹1,20,000

for 5 years with State

Bank of India:

भारतीय स्टेट बैंक में 5 वर्षों के

लिए सावधी जमा में निवेश

Compute his total tax liability under both old and new tax
regime for the assessment year 2025-26.

आकलन वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के
तहत उनकी कुल कर देनदारी की गणना करें।